

# समारोह | आईटीआई कैंपस में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित

## 39 डिग्री तापमान, 2 घंटे इंतजार में पसीना-पसीना हुए छात्रों को देखकर मंत्री बोले- मुझे खेद है

एजुकेशन रिपोर्टर | ग्वालियर बिरलानगर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कैंपस में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, रोजगार की पढ़ाई चलो आईटीआई कार्यक्रम में तेज गर्मी में पंडाल के नीचे बच्चों को कार्यक्रम शुरू होने के लिए 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा, ऐसे में बच्चे पसीना-पसीना हो गए। बच्चों का यह हाल देखकर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया द्रवित हो गए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी अन्यथा वह इसे जीवाजी यूनिवर्सिटी के हॉल में आयोजित करवा देते। गर्मी में बच्चे परेशान हो रहे हैं इसका हमें खेद है। कार्यक्रम में लगभग स्कूलों और आईटीआई के 500 बच्चे शामिल थे। कार्यक्रम 10.30 बजे शुरू होना था लेकिन बच्चे 10 बजे से मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 11.50 बजे पहुंचे तब कार्यक्रम विधिवत शुरू हुआ।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अब सर्विस सेक्टर में डिग्री नहीं हुनर चाहिए, इसलिए उच्च शिक्षा के साथ-साथ हुनर भी सीखें। इसके



आईटीआई कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में गर्मी से बेहाल बच्चे।

लिए केंद्र सरकार ने सुविधाएं देना शुरू कर दी हैं।

कार्यक्रम में प्रदेश की नगरीय विकास मंत्री माया सिंह, विधायक नारायण सिंह, भारत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मनीषा भुजबल यादव, जीडीए अध्यक्ष अभय चौधरी, साडा अध्यक्ष राकेश जादौन सहित संभागीय आयुक्त एसएन रूपला, कलेक्टर डॉ. संजय गोयल तथा एसपी डॉ. आशीष भी मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे देश में 51 प्रतिशत

आबादी युवा है और सबसे बड़ी समस्या इसके सामने बेरोजगारी है। हमारे देश में आजादी के बाद ऐसी परिस्थिति बनी कि बीए, एमए करने के बाद सरकारी नौकरी मिल जाती थी लेकिन अब इतनी सरकारी नौकरी नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर की अपनी सीमा है। सर्विस सेक्टर में डिग्री के साथ-साथ हुनर भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ के साथ ही मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया का नारा दिया था अब उसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है।

प्रदेश की नगरीय विकास मंत्री

### हायर सेकंडरी में 85 प्रतिशत अंक तो कॉलेज फीस माफ

उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कार्यक्रम में घोषणा की कि जिन बच्चों के हायर सेकंडरी में 85 प्रतिशत अंक आएं, उनसे सरकारी कॉलेज में फीस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही अगले सत्र से कॉलेजों में बी.वॉक शुरू किया जा रहा है, इसमें सामान्य पाठ्यक्रम की डिग्री के साथ-साथ व्यावसायिक ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि डिग्री मिलने के साथ ही रोजगार भी मिल सके। कार्यक्रम के बाद फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी की छात्राओं ने श्री पवैया को ज्ञान देकर प्रशिक्षण अधिकारी आशा द्वारा ज्यादा मूल्य पर किताबें ड्रेस देने तथा तरह-तरह से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

मायासिंह ने कहा कि आईटीआई चलो अभियान युवाओं और महिलाओं को हुनर के बल पर आगे बढ़ाने की योजना है और इसमें सभी को बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। पढ़ाई के साथ-साथ कौशल विकास भी जरूरी है।

पैसे ले  
करने  
जेल भे  
ग्वालियर  
करने व  
आरपी  
के आवे  
पटवारी  
जमानत  
ने सुनव  
याचिका  
शासन  
सिकरवा  
पटवारी  
अमरीश  
पाठक  
शासकीय  
कंप्यूटर  
आरोपिय  
खारिज  
के बाव  
याचिका  
के खिल  
की धार  
आदि ध  
क्रिया है  
कंपनी वे  
क्राइम ब्र  
शुभम उ  
हिमांशु  
गिरफ्तार  
क्राइम ब्र  
को पुलि  
इसमें त  
लेपटॉप,  
हैं। कोर्ट  
आरोपिय  
गिरफ्तार